

थाना डिडौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज बन्दूक, नाजायज पिस्टल व कारतूस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपद में चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त/चैकिंग के दौरान द्वारा 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.09.22 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा ग्राम फत्तेहपुर अब्बू के पास चौराहे पर बैरियर लगाकर सघन चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान पुलिस टीम संदिग्ध प्रतीत होने पर एक ब्लैक कलर स्कोर्पियो गाडी रजि0न0 UP38U 4848 को चेक किया गया जिसमे बैठे 1. सौरभ कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम कडापुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा से एक नाजायज बन्दुक 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 2. अजय पुत्र यशपाल निवासी गौहर नगर थाना एचौडा कम्बोह जनपद सम्भल से एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय 4 जिन्दा कारतूस व 3. जयवीर पुत्र पीतम निवासी चन्दवार थाना असमौली जनपद सम्भल के कब्जे से 08 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुये । अवैध शस्त्र रखने का लाईसेन्स तलब किया गया तो अभियुक्त सौरभ द्वारा बरामद बन्दूक का अपने परिचित के नाम पर लाईसेन्स होना बताया गया जिसके द्वारा प्राधिकृत होने का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना डिडौली पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । स्कोर्पियो गाडी रजि0न0 UP38U 4848 के कागज न दिखाने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सौरभ पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम कडापुर थाना अमरोहा जनपद अमरोहा ।
2. अजय पुत्र यशपाल निवासी गौहर नगर थाना एचौडा कम्बोह जनपद सम्भल ।
3. जयवीर पुत्र पीतम निवासी चन्दवार थाना असमौली जनपद सम्भल

बरामदगी विवरण:-

1. एक नाजायज पिस्टल 32 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर ।
2. एक नाजायज बन्दूक सिंगल बैरल 12 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ:-

1. मु0अ0सं0 354/2022 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय:-

1. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जयवीर:-

1. मु0अ0सं0 355/22 धारा 3/25 एक्ट थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवेज चौहान थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

2. उ0नि0 तेजेन्द्र वालियान थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

3. का0 76 विवेक अत्री थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

4. का0 1066 प्रदीप कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA